

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातन कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited  
(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्र क्र० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/107

दिनांक- 03/06/2017

### प्रेस विज्ञप्ति

**एनसीएल के कोयला उत्पादन में 3 प्रतिशत एवं डिस्पैच में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी  
चालू वित्त वर्ष में मई तक कंपनी के किया 14.05 मिलियन टन कोयले का उत्पादन एवं 14.36  
मिलियन टन कोयले का डिस्पैच**

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों यानी मई के अंत तक 14.05 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर लिया है और इस अवधि में कंपनी का कोयला प्रेषण (डिस्पैच) 14.36 मिलियन टन रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले क्रमशः 2.9 प्रतिशत तथा 4.9 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में मई तक कंपनी ने 13.65 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं 13.69 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया था।

चालू वित्त वर्ष में मई की समाप्ति तक एनसीएल के अमलोरी क्षेत्र ने 1.89 मिलियन टन, बीना ने 1.26 मिलियन टन, दुधिचुआ ने 2.31 मिलियन टन, जयंत ने 2.37 मिलियन टन, झिंगुरदा ने 0.42 मिलियन टन, ककरी ने 0.31 मिलियन टन, खड़िया ने 1.21 मिलियन टन, निगाही ने 2.59 मिलियन टन, कृष्णशिला ने 1.01 मिलियन टन तथा ब्लॉक बी ने 0.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया।

इसी तरह, चालू वित्त वर्ष में मई की समाप्ति तक एनसीएल के अमलोरी क्षेत्र ने 1.90 मिलियन टन, बीना ने 1.21 मिलियन टन, दुधिचुआ ने 2.03 मिलियन टन, जयंत ने 2.90 मिलियन टन, झिंगुरदा ने 0.40 मिलियन टन, ककरी ने 0.29 मिलियन टन, खड़िया ने 1.17 मिलियन टन, निगाही ने 2.50 मिलियन टन, कृष्णशिला ने 0.97 मिलियन टन तथा ब्लॉक बी ने 1.00 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया।

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में एनसीएल को 90 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं 90 मिलियन टन ही कोयला प्रेषण की जिम्मेदारी दी गई है। मार्च में समाप्त पिछले वित्त वर्ष में

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरात्र कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



**Northern Coalfields Limited**  
(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

एनसीएल ने 84.10 मिलियन टन कोयले का उत्पादन एवं 83.46 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया था, जो किसी भी वित्त वर्ष में कंपनी का अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन एवं प्रेषण है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का कोयला उत्पादन एवं प्रेषण दोनों ही निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा था। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में 82 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं 82 मिलियन टन ही कोयला प्रेषण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे कंपनी ने वित्त वर्ष की समाप्ति से 05 दिन पूर्व ही हासिल कर लिया था।

जनसंपर्क अधिकारी